



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88]

No. 88]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 1980/चैत्र 12, 1902

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1980/CHAITRA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सा०का०नि 187(अ) :—संख्या ई(सी)ओ, 1977/ए एम(147) :—
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के बंड
3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-
द्वारा निर्धारित (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नियति (नियंत्रण) पाँचवां संशोधन आदेश,
1980 की संज्ञा दी जाए।

2. नियति (नियंत्रण) आदेश, 1977 में —

“(1) निम्नलिखित को बराब धारा 15(क) के बाद जोड़ा
जाएगा :—

(1) स्नेहक तेल, एडिक्टिस, ल्यूब तेल और अन्य सम्बंध
पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चा माल जो लुब्रीजोल
इण्डिया लि०, बम्बई और भारतीय तेल निगम लि०,
हिल्डुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० और भारत पेट्रोलियम
निगम द्वारा ल्यूब एडिक्टिस के निर्माण के लिए प्रयोग
किया जाता है के तमूनों का भारत में इनके संस्थापना
द्वारा मूल्यांकन/परीक्षण प्रयोजनों के लिए संयुक्त राज्य
अमेरिका की लुब्रीजोल की प्रयोगशालाओं के लिए
निर्यात।”

(2) भाग “ख” अनुसूची—1

(1) नीचे संकेतित क्रम संख्याओं के सामने वर्तमान प्रवि-
ष्टियों को हम प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं० 19 मिर्च सूखी, सभी रूप में।

क्रम सं० 24(3) आलू के बीज (सभी किस्म के) और प्याज
के बीज।

क्रम सं० 45 (6) जिप्सम के जिप्सम एनहाइड्राइड और
क्रोमोगिक फास्फेट जिप्सम।

क्रम सं० 45(12) कोरोन्डम सेफायर और रुबीज से भित्त

क्रम सं० 48 रिफार्मेट/निष्ठा/मोटर स्ट्रिट

(2) निम्नलिखित को हटाया जाएगा :—

“4(ख)(5)—मोर पूछ पंख

8—प्रांन से भित्त सूखी मछली, शार्क फिन्स, मछली के उदर,
बीच-डि-मेयर, बम्बई डाक और अन्य सूखी मछली
मछली

9—मछली जवांड़क

30—बाटल छाल

96—गोब रोजिन्स”

(3) निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाएगा :—

“4(ब)—मोर-पूछ पंख

7(1)(10)—सूखी मछली”

(3) भाग "क", अनुसूची-1 में--

(1) क्रम सं० 22(26) के सामने वर्तमान प्रविष्टि को हटाया जाएगा।

(2) क्रम सं० 14, 21-क और 50 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"14--स्टिकलाक, किरलाक, मोलम्मा (डोगाली सीबिंग मलिन), पसेवा, झुडलाक और कोई भी लाक जिनमें जीवन कीड़े हों।

21-क--लवण, सभी प्रकार के किन्तु मोडियम क्लो-राइड आईपी/बीपी/जीआर/ईपीसी ग्रेड को छोड़ कर

50--खनिज तेल, सभी प्रकार के किन्तु अपरिष्कृत तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, स्टेइक तेल, ग्रीज, पेट्रोल, घुलन तेल, खनिज और प्राकृतिक तरपन-टाइन, अस्फाल्ट/बिटुमन।"

(3) क्रम सं० 33(10) के सामने निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :--
"चन्दन की लकड़ी काँट, चिरी हुई छड़ों के रूप में"

(4) नीचे संकेतित अनुसार निम्नलिखित को जोड़ा जाए :--

"41(7)--अलोहा तथा इस्यात के एक द्वार कायल 41(18) भाग "ख" की क्रम सं० 80(9) और 80(10) के अन्तर्गत आने वाले से भिन्न मिश्रधातु, इस्यात।

57--बैटल छाल।

58--गोद रोजिन।

59-भाग "ख" की क्रम सं० 83 के सामने उल्लिखित से भिन्न फेरस कतरन।"

(4) बुले सामान्य लाइसेंस-3 में--

(1) कालम 2 में निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रम सं० 4(1)

(9) के बाद जोड़ा जाएगा :--

"(10) सूखी मछली"

(2) कालम 2 में क्रम सं० 10 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"सूखी मिर्च--सभी रूप में"

(3) कालम 2 में क्रम सं० 17 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"रसायन/मिनीन जियम 80 प्रतिशत से कम शुद्धता के साथ"

(4) क्रम सं० 29(1) और (3) से (7) तक के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को हटाया जाएगा।

(5) कालम 2 में क्रम सं० 62, 65(21) और 76 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"62--निम्नलिखित रसायन :--

(1) म्यूटिल एल्कोहल

(2) म्यूटिल एसिटेट

(3) मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड

(4) ट्रिक्लोरो एथिलीन

(5) परक्लोरो एथिलीन

(6) टेट्रा क्लोरो एथेन

(7) रबड़ रसायन

(8) एमिटिक एसिड

65(21)--इन्ट, चिप्स, फ्लेक्स और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी

76--बार्ने साल्ट से भिन्न साल्ट"

(6) कालम 2 में क्रम सं० 9 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को क्रम सं० 9(1) के रूप में पढ़ा जाए और इसके बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :--

1	2	3	4
9(2)	इलायची (बड़ी)	बी-18(2)	भारत के साथ समान स्थल सीमा वाले देशों को छोड़ कर सभी गन्तव्य स्थानों के लिए नियमित अनुमेष होगा।

(7) कालम 4 में क्रम सं० 3 के सामने वर्तमान शर्त के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :--

"नियतकों से एक शपथपत्र यह घोषणा करते हुए कि मांस का परेषण केवल भैंस के मांस का ही है।"

(8) कालम 4 में क्रम सं० 31 व 32 के सामने प्रदर्शित वर्तमान अभ्युक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी :--

"नियत की अनुमति नियत के लिए इच्छित मद् की गुण/मात्रा के संबंध में वस्तु आयुक्त द्वारा जारी किए गए पंजीकरण व निर्धारण प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाएगी।"

(9) कालम 4 में क्रम सं० 34 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :--

"वस्तु आयुक्त से या उत्तर प्रदेश सरकार की क्वालिटी माफिग स्कीम के अन्तर्गत इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि नियत किए जाने के लिए इच्छित मात्रा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानक के समरूप है।"

(10) कालम 4 में क्रम सं० 43 के सामने द्वितीय पंक्ति में "कॉयर बोर्ड" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द निविष्ट किए जाएं :--

"/लाइसेंस प्राधिकारी"

(11) कालम 4 में क्रम सं० 56 के सामने शर्त (1) और (2) में प्रदर्शित कीमतें क्रमशः 20 रुपए और 19 रुपए के लिए 22 रुपए और 21 रुपए की जाएंगी।

(12) कालम 4 में क्रम सं० 63 और 64 के सामने प्रदर्शित शब्द "31-3-1980 तक" हटा दिए जाएंगे।

(13) निम्नलिखित को नीचे उल्लिखित अनुसार निविष्ट किया जाएगा :--

1	2	3	4
32-क	साफ्ट काटन बी-68 वेस्ट और यलो पीकिंग	बी-68	नियत के लिए उल्लिखित मद् के गुण/मात्रा के संबंध में वस्तु आयुक्त द्वारा जारी किए गए पंजीकरण व निर्धारण प्रमाणपत्र के आधार पर।

- (14) क्रम सं० 57 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

1	2	3	4
57	बागमती बावण और बी-20	निर्यात की अनुमति समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न क्रिस्मों के लिए घोषित न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त के अधीन दी जाएगी।	

- (15) कालम 4 की क्रम सं० 59 में निम्नलिखित को वर्तमान शर्त के अन्त में जोड़ा जाएगा :—

“समय-समय पर बस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन”।

- (16) कालम 4 की क्रम सं० 60 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“निम्नलिखित जूतों के निर्यात की स्वीकृति नीचे प्रत्येक के सामने संकेतित न्यूनतम निर्यात कीमतों के अधीन दी जाएगी :—

1. चप्पल/सैंडल	प्रति जोड़े की न्यूनतम निर्यात कीमत रु० पै०
----------------	---

1	2
1. चमड़े के साज के साथ बच्चों के सैंडल	10.00
2. चमड़े के साज के साथ महिलाओं की चप्पल।	
(1) जरी स्ट्रैप/कशीदाकारी किया हुआ साज	16.00
(2) एम्बोस्ड साज	13.00
3. लेख चमड़े, पटसन, कपड़े अथवा इनके संयोजन से बने साज के साथ हराबी क्रिस्म के सैंडल	
(1) 4" और इससे अधिक के सोल तथा हील के साथ लकड़ी के ऊपरी भाग वाले	42.00
(2) 4" तक सोल तथा हील के साथ लकड़ी के ऊपरी भाग वाले	36.00
(3) 2" और इससे अधिक की लकड़ी की हील वाले	30.00
(4) 2" से कम की लकड़ी की हील वाले	24.00
(5) फ्लैट सैंडल	17.50
4. चमड़े के साज के साथ महिलाओं के सैंडल	
(1) 4" और इससे अधिक की एड़ी	31.00
(2) 2" और इससे अधिक परन्तु 4" से कम की एड़ी	26.50
(3) अन्य क्रिस्म जो उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल नहीं हैं	17.50
5. चमड़े के साज के साथ पुरुषों की सैंडल	17.50
6. कोल्हापुरी और समान चमड़ा	
(1) पुरुष	11.00
(2) महिलाएं	10.00
(3) बच्चे	8.50
7. निम्नलिखित के लिए सभी पी० बी० सी० सैंडल :—	
(1) पुरुष	7.50
(2) महिलाएं	6.25
(3) बच्चे	5.00

- (ii) क्रिस्म के जूत और रबड़/पी० बी० सी० बूट :—
क निम्नलिखित के लिए रबड़ के मोल के साथ क्रिस्म के बंद जूते :—

(1) पुरुष	8.00
(2) महिलाएं	6.50
(3) बच्चे	4.50

- ख. निम्नलिखित के लिए रबड़ के मोल के साथ क्रिस्म के बंद बूट :—

(1) पुरुष	11.50
(2) महिलाएं	10.50
(3) बच्चे	5.75

- ग. निम्नलिखित के लिए पूर्ण रबड़/पी० बी० सी० जनसह बूट :

(1) पुरुष	26.50
(2) महिलाएं	20.50
(3) बच्चे	13.75

- (iii) उपर्युक्त i और ii में सूचीबद्ध न किए गए जूतों के निर्यात की अनुमति किसी भी न्यूनतम निर्यात कीमत प्रतिबंध के बिना दी जाएगी।

- (iv) निम्नलिखित के लिए चमड़े के बंद जूते

(क) (1) पुरुष	150.00
(2) महिलाएं	110.00
(3) बच्चे	70.00

- (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट न्यूनतम कीमत से कम कीमतों पर चमड़े के बंद जूतों का निर्यात कुला सामान्य लाइसेंस 4 के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध होगा।

- (17) निम्नलिखित मद क्रम सं० 84 के बाद जोड़ी जाएगी :—

1	2	3	4
85.	भारतीय और विदेशी दोनों एयर लाइन्स द्वारा मरम्मत/पूर्ण मरम्मत के लिए वायुयान पुर्जे, संघटक और उपसिद्ध	बी-90 देश में मरम्मत के उद्देश्य के लिए एयर लाइन्स द्वारा इस शर्त के अधीन कि जिन पुर्जों और उपसिद्धों की मरम्मत सुविधाएं (अनुमोदित या अग्र्यथा) देश में उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए वे एयर लाइन्स प्रत्येक 6 महीने में सम्बद्ध क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालय के कार्य प्रभारी से निकासी प्राप्त करेंगे।	

- (5) कुला सामान्य लाइसेंस 4 में :—

- (1) क्रम संख्या 1 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
- (2) कालम 2 में क्रम सं० 23 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—
- (1) हटा दी गई
- (2) इनाट, ब्लूस् और स्लेस
- (3) रोलड/कास्ट बिलेटस, बार्स और वायर राइस
- (4) रोलड स्ट्रक्चरल सैफेशन
- (5) एच आर प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स
- (6) कोल्ड रोलड शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स

- (7) अन्वीकृत नावीन्य/नवीन गीतम्
 (8) रेल और रोड बरिंग प्लेट बाग
 (9) कार्बन/गिफ्टो मॅगनीज क्रोम वैनेडियम स्प्रिंग स्टील,
 वायर राउन्ड मे भिन्न सभी श्रेणियों मे
 (10) सल्फर बैरिंग की कटिंग स्टील, फिमी भी श्रेणी में
 (11) रेलवे स्टील, एक्साव, टायर और/या पूर्ण स्टील रोड,
 मशीन स्टील मशीन
 (3) कालम 2 में क्रम सं० 25 के सामने प्रदर्शित प्रविष्टि के स्थान
 पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—
 “कैरम स्क्रैप
 1. सी० आई० स्क्रैप स्क्रैप
 2. रिजिस्टर्ड शक्ति हस्ताट मोल्ड और बाटम प्लेट स्क्रैप
 3. मिल स्क्रैप स्क्रैप
 4. कास्ट आयर्न बिल्ट रोल स्क्रैप
 5. टूल और अनाथ स्टील स्क्रैप और हाई स्पीड स्टील स्क्रैप
 (जंगवारोष्ठी स्टील स्क्रैप को छोड़कर)”
 (4) क्रम संख्या-31 के सामने निम्नलिखित को निविष्ट किया
 जाएगा :—

1	2	3	4
31.	गिफ्टो/निष्ठा/मोटर स्प्रिट	बी-48	भारतीय तेल निगम

- (5) कालम 4 में क्रम सं० 17 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि
 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—
 “राष्ट्रीय जल बिजल विकास निगम।”

[मिथिल सं०-19(1)/79-ई-2 में जारी]

सी० वेंकटरामन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st April, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

G.S.R. 187 (E) No. E (C) O, 1977/AM (147).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1980.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(1) The following shall be added after clause 15 Savings (k) :—

“(1)—Export of samples of lubricating oil, additives, lube oil and other related petroleum products and raw materials used to manufacture Lube Additives by Lubrizol India Ltd., Bombay and Indian Oil Corporation Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., and Bharat Petroleum Corporation Ltd., from their installations in India to Lubrizol's Laboratories in U.S.A. and U.K. for evaluation/testing purposes”.

(2) In Part 'B', Schedule I—

(i) the existing entries against the S. Nos. indicated below shall be substituted as under:—

S.No. 19 Chillies dried, in all forms.

S.No. 24(iii) Potato Seeds (all varieties) and onions seeds.

S.No. 45(vi) Gypsum anhydride of gypsum and industrial phosphate gypsum.

S.No. 45(vii) Corundum, other than sapphire and rubies.

S.No. 48 Reformat/Naphtha/Motor Spirit.

(ii) the following shall be deleted:—

“4(b)(5)—Peacock tail feathers.

8—Dried Fish other than Prawn, Sharkfins, Fish Maws, Beach-de-Merc, Bombay Ducks and other Dried Shell Fish.

9—Fish Spawn.

30—Wattle Bark

96—Gum rosin”

(iii) the following items shall be added:—

“4(d)—Peacock Tail Feathers.

7(i)(10)—Dried Fish”

(3) In Part 'A', Schedule I—

(i) the existing entry appearing against S. No. 22(xvi) shall be deleted.

(ii) the existing entries appearing against S. Nos. 14, 21A and 50 shall be substituted by the following
 “14—Sticklac, kirlac, molamma (including Dogalee scivings) Paswa, Brood lac and any lac containing living insects.

21A—Salts, all sorts, excluding sodium chloride IP/BP/GR/EPC grade.

50—Mineral oil, all sorts, including crude oil, kerosene, fuel oil, lubricating oils, greases, petrol solvent oils, mineral and natural turpentine, asphalt/bitumen.”

(iii) the following shall be inserted against S.No. 33(10):
 “Sandalwood in log, sawn and billets form”

(iv) the following shall be added as indicated below:—
 “41(xvii)—HR Coils of Iron and Steel.

41(xviii)—Alloy steels other than those covered by S. Nos. 80(9) and 80(10) of Part 'B'.

57—Wattle Bark.

58—Gum Rosin.

59—Ferrous Scrap other than those mentioned in Part 'B' against S. No. 83”.

(4) In OGL-3—

(i) in col. 2, the following entry shall be added after S. No. 4(i)(9):—

“(10)—Dried Fish”

(ii) in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 10 shall be substituted by the following:—

“Chillies dried, in all forms”

(iii) in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 17 shall be substituted by the following:—

“Chemical/Marine Gypsum with purity below 80%”

(iv) the existing entries appearing against S. No. 29(i) and (iii) to (vii) shall be deleted.

- (v) in col. 2, the existing entries appearing against S. No. 62, 65(21) and 76 shall be substituted by the following :—

“62—Chemicals the following:—

- (i) Butyl Alcohol
- (ii) Butyl Acetate
- (iii) Mono Chloro Acetic Acid
- (iv) Trichloro Ethylene
- (v) Perchloro Ethylene
- (vi) Tetra Chloro Ethane
- (vii) Rubber Chemicals
- (viii) Acetic Acid

65(21)—Sandalwood in the form of dust, chips, flakes and powder

76—Malt, other than Barley Malt”

- (vi) in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 9 shall be read as S. No. 9(i) and the following shall be added thereafter:—

1	2	3	4
9(ii)	Cardamoms (Large)	B.18(ii)	Export allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.

- (vii) in col. 4 the following shall be added after existing condition against S. No. 3 :—

“Affidavit from the exporters declaring that the consignment of meat is buffalo meat only”

- (viii) in col. 4 the existing remark appearing against S. No. 31 and 32 shall be substituted by the following:—

“Export will be allowed against registration and allocation certificate regarding quality/quantity of the item intended for export issued by the Textile Commissioner”.

- (ix) in col. 4, against S. No. 34, the existing entry shall be substituted by the following:—

“A certificate from the Textile Commissioner or under the quality marking scheme of the UP Government to the effect that goods desired to be exported conform to the standard prescribed for the purpose”.

- (x) in col. 4, against S. No. 43, in the second line the following words may be inserted after the words “Coir Board”:—

“/Licensing Authority”

- (xi) in col. 4 the prices appearing in conditions (i) and (ii) against S.No. 56 shall be read Rs. 22/- and Rs. 21/- for Rs. 20/- and Rs. 19/- respectively.

- (xii) in col. 4, the words “upto 31-3-1980” appearing against S. Nos. 63 and 64 shall be deleted.

- (xiii) the following shall be inserted as indicated below:—

1	2	3	4	5
32A.	Soft Cotton Waste and yellow pickings.	B.68	Against registration and allocation certificate regarding quality/quantity of the item mentioned for export issued by the Textile Commissioner.	

- (xiv) the existing entry appearing against S. No. 57 shall be substituted by the following:—

1	2	3	4
57.	Basmati Rice and other fine and superfine varieties e.g. Tella, Hamsa, Mashuri, Permel etc.	B. 20	Export allowed subject to minimum export prices announced by the Govt. from time to time for different varieties.

- (xv) in col. 4, against S. No. 59, the following shall be added at the end of the existing condition:—

“and subject to minimum export price announced by the Textiles Commissioner from time to time”.

- (xvi) in col. 4, against S. No. 60 the existing entry shall be substituted by the following:—

“Export of the following footwear will be allowed subject to minimum export prices as indicated against each :—

I. Chappals /Sandals	Minimum export price per pair Rs. P.
1. Sandals for children with leather upper :	10.00
2. Chappals for women with leather upper.	
(i) Zari strap/embroidered upper	16.00
(ii) Embossed upper	13.00
3. Haurachi type sandals with upper from laced leather, jute, textile or combination thereof—	
(i) Wooden bottom with sole and heel of 4" above	42.00
(ii) Wooden bottom with sole and heel upto 4"	36.00
(iii) Wooden heel of 2" and above	30.00
(iv) Wooden heel below 2"	24.00
(v) flat sandal	17.50
4. Women sandals with leather upper :	
(i) heel of 4" and above	31.00
(ii) heel of 2" and above but below 4"	26.50
(iii) other types not included in (i) and (ii) above	17.50
5. Men sandals with leather upper	17.50
6. Kolhapuri and plain leather :	
(i) Men	11.00
(ii) Women	10.00
(iii) Children	8.50
7. All PVC Sandals for:	
(i) Men	7.50
(ii) Women	6.25
(iii) Children	5.00

II. Canvas shoes and rubber/PVC boots:

A. Closed canvas shoes with rubber sole for:	
(i) Men	8.00
(ii) Women	6.50
(iii) Children	4.50
B. Closed canvas boots with rubber sole for:	
(i) Men	11.50
(ii) Women	10.50
(iii) Children	5.75
C. Complete rubber/PVC Waterproof boots for :	
(i) Men	26.50
(ii) Women	20.50
(iii) Children	13.75

III. Export of footwear not listed in I and II above will be allowed without any minimum export price restrictions.

IV. Closed leather shoes for :

(A) (i) Men	150.00
(ii) Women	110.00
(iii) Children	70.00

(B) Export of closed leather shoes at prices below the minimum floor price indicated in (A) above will be canalised through STC under OGL-4

(xvii) the following item shall be added after S. No. 84:—

1	2	3	4
85.	Aircraft spares components and accessories for repairs/overhauling by the Airlines both Indian and foreign.	B.90	By the Airlines in the country for the purpose of repairs subject to the condition that they would get clearance from the Officer-in-Charge of the concerned Regional Inspection Office every six months for the spares and accessories for which repair facilities (approved or otherwise) are not available within the country.

(5) in OGL-4—

(i) The existing entry appearing against S. No. 1 shall be deleted

(ii) in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 23 shall be substituted by the following:—

1. Deleted
2. Ingots blooms and slabs
3. Rolled/cast billets, bars and wire rods.
4. Rolled Structural Sections

5. HR plates/sheets/strips
6. Cold Rolled sheets/strips/coils
7. Galvanised corrugated/plain sheets
8. Rails and rolled bearing plate bars
9. Carbon/silico manganese chrome vanadium spring steel in all categories other than wire rods.
10. Sulphur bearing free cutting steels in any category.
11. Railway Wheels, Axles, Tyres and/or complete wheels sets, pressed steel sleepers.

(iii) in col. 2, the entry appearing against S. No. 25 shall be substituted by the following:—

“Ferrous Scrap:

1. C.I. Skull Scrap
2. Rejected broken ingot mould and bottom plate scrap.
3. Mill Scale Scrap
4. Cast Iron Chilled Roll Scrap.
5. Tool and Alloy Steel Scrap and high speed steel scrap (excluding stainless steel scrap)”

(iv) the following shall be inserted against S. No. 31 :—

1	2	3	4
31.	Reformat/Naphtha/Motor Spirit	B.48	Indian Oil Corporation

(v) in col. 4, the existing entry appearing against S. No. 17 shall be substituted by the following:—

“National Film Development Corporation”.

[Issued from file No. 19(1)/79-El]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Export.